



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

2 पौष 1935 (श0)  
(सं0 पटना 927) पटना, सोमवार, 23 दिसम्बर 2013

---

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

14 जून 2013

सं0 1/रा.स्था.(7)-स.नि. (समायोजन/नियुक्ति)-01/2012 सह.-2573—कृषि विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 8160 दिनांक 28.12.11 द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 5661 दिनांक 02.09.08 द्वारा बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद एवं कृषि उत्पादन बाजार समितियाँ (विघटित) के कतिपय कर्मियों का समायोजन/नियुक्ति विभिन्न विभागों में निम्न पद एवं वेतनमान में किया गया था। इसके विरुद्ध कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में याचिकाएँ दायर की गईं। सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या- 6997/08 में दिनांक 27.07.10 को न्यायादेश पारित किया गया। पारित न्यायादेश का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में कतिपय अवमाननावाद दायर किया गया। मामले के समाधान हेतु दिनांक 24.10.11 को हुई सचिवों की त्रिसदस्यीय समिति की बैठक में बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद एवं कृषि उत्पादन बाजार समितियाँ (विघटित) के निम्न पद एवं वेतनमान में समायोजित/नियुक्ति कर्मियों को समकक्ष पद/वेतनमान में समायोजन द्वारा नियुक्ति की अनुशंसा की गयी है, जिसकी स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 01.12.11 को हुई बैठक में मद संख्या-25 के तहत दी गयी है, जिसके क्रम में सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ वेतनमान 9300-34800, ग्रेड पे 5400/- में समायोजन द्वारा सशर्त नियुक्त किया गया है।

श्री रजनीकान्त, पूर्व पणन सचिव, बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (विघटित) जिन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 5661 दिनांक 02.09.2008 द्वारा पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत प्रखण्ड पंचायत राज

पदाधिकारी के पद पर वेतनमान 9300-34800, ग्रेड पे 4200 रुपये में समायोजित किया गया था, ने कृषि विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 8160 दिनांक 28.12.11 के आलोक में सहकारिता विभाग, बिहार, पटना में दिनांक 17.01.2012 को पूर्वा. योगदान किया। इन्हें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सौर बाजार, सहरसा के ज्ञापांक 121-2 दिनांक 13.01.12 द्वारा दिनांक 13.01.12 के अपराहन से विरमित किया गया परन्तु श्री रजनीकान्त की सेवापुस्त बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (विघटित) द्वारा उनके ज्ञापांक 1314 दिनांक 22.11.2012 द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

उक्त के आलोक में श्री रजनीकान्त, गृह जिला-बक्सर, जन्म-तिथि 02.03.1952, शैक्षणिक योग्यता-स्नातक (प्रतिष्ठा) को सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, वेतनमान 9300-34800, ग्रेड पे 5400 में समायोजन/नियुक्ति के फलस्वरूप योगदान स्वीकृत करते हुए सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, किशनगंज के रिक्त पद पर सहकारिता विभाग में योगदान की तिथि 17.01.2012 से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.03.2012 तक वैचारिक पदस्थापन किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

**शत्रुघ्न कुमार चौधरी,**

सरकार के संयुक्त सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 927-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>